



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38 नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18-सितम्बर 24, 2004 (भाद्रपद 27, 1926)
No. 38] NEW DELHI SATURDAY, SEPT. 18 - SEPTEMBER 24, 2004 (BHADRA 27, 1926)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा पंक्तियों से संबंधित अधिसूचनाएं	787
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	989
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पंक्तियों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1281
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विन तथा रिपोर्ट	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	923
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	7035
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन श्रवण द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विनयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3839
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	295
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्ज करने वाला सम्पूर्ण	

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

Page	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 787	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 989	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. .. 923
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 1281	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 7035
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 3839
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 295
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION II]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 सितम्बर 2004

संकल्प

अनुवाद

(क) एक पुरस्कार : ₹ 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार केवल)

प्रत्येक पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

5. पात्रता

इस योजना में भारत सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित प्रत्येक भारतीय नागरिक भाग ले सकता है। योजना में मूल्यांकन समिति के सदस्य/अध्यक्ष भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय के कर्मचारी भी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

6. मूल्यांकन समिति

(1) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कारों को सिफारिश करने के लिए 5 सदस्यों को एक मूल्यांकन समिति होगी। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय मूल्यांकन समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय और राजभाषा विभाग प्रत्येक से एक-एक अधिकारी इस मूल्यांकन समिति के सदस्य होंगे। शेष दो सदस्य पुस्तक के विषय पर हिन्दी भाषा के जानकार गैर सरकारी विशेषज्ञ होंगे।

(2) मूल्यांकन समिति के गैर-सरकारी सदस्य व्यक्तिगत रूप में पुस्तकों/पाण्डुलिपियों के अध्ययन के पश्चात अपनी सिफारिशें संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे।

(3) गैर-सरकारी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर मूल्यांकन समिति की बैठक में विचार किया जाएगा और तदनुसार पुरस्कारों का निर्णय लिया जाएगा।

(4) मूल्यांकन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के पश्चात पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।

(5) मूल्यांकन समिति के सभी गैर-सरकारी सदस्यों को मूल्यांकन कार्य के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और बैठक में भाग लेने के लिए नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

सं० 8(4)/2004-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय निर्धारित विषय पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने वाले लेखकों और प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संसदीय प्रणालियों और पद्धतियों से संबंधित विषयों अथवा मंत्रालय की आवंटित विषयों से संबंधित अथवा किसी विशेष वर्ष में मंत्रालय द्वारा निर्धारित विषय पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन या अन्य भाषाओं से पुस्तकों हिन्दी में अनुवाद करने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने की योजना चला रहा है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से होंगी :—

1. योजना का नाम

इस योजना का नाम “संसदीय हिन्दी पुस्तक पुरस्कार योजना” होगा।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य निर्धारित-विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने वाले लेखकों और प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद को प्रोत्साहन देना है।

3. विषय

पुस्तक (मौलिक अथवा अनुदित) का विषय संसदीय प्रणाली, प्रक्रिया और पद्धति से संबंधित किसी भी विषय पर हो सकता है।

4. पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार निम्न प्रकार से होंगे :—

मूल पाण्डुलिपि

- (क) प्रथम पुरस्कार : ₹ 50,000/- (रुपए पचास हजार केवल)
 (ख) द्वितीय पुरस्कार : ₹ 30,000/- (रुपए तीस हजार केवल)
 (ग) तृतीय पुरस्कार : ₹ 20,000/- (रुपए बीस हजार केवल)

7. पुस्तक/पाण्डुलिपि लेखन की अवधि

योजना के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक/पाण्डुलिपि 1-1-2002 में पहले लिखी/प्रकाशित नहीं होनी चाहिए।

8. सामान्य निबंधन और शर्तें

योजना में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को निम्नलिखित निबंधन और शर्तों का पालन करना होगा और वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निबंधन और शर्तों द्वारा विनियमित होंगे :—

(1) रंजितार समाचार (हिन्दी संस्करण) सहित प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन के द्वारा लेखकों से आवेदन मंगाए जाएंगे।

(2) योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों और पाण्डुलिपियां स्वीकृत की जाएंगी। लेखकों द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तक/पाण्डुलिपियां निर्धारित अवधि के दौरान लिखी/प्रकाशित होनी चाहिए।

(3) लेखकों से यह अपेक्षित होगा कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ पुस्तक/पाण्डुलिपि की पांच प्रतियां, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, 8 संसद भवन, नई दिल्ली को निर्धारित तारीख से पहले भेजें। इस प्रकार प्राप्त पुस्तक/पाण्डुलिपि को लौटाया नहीं जाएगा।

(4) आवेदन पत्र के साथ लेखक की पास-पांट आकार की दो फोटो संलग्न होनी चाहिए।

(5) निर्धारित तारीख के पश्चात् प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुस्तकों/पाण्डुलिपियों के डक में खो जाने अथवा देर से प्राप्त होने के लिए मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) लेखकों का अपनी पुरस्कार प्राप्त पुस्तकों/पाण्डुलिपियों पर कापी-राइट अधिकार बना रहेगा।

(7) योजना के अन्तर्गत केवल उन पुस्तकों को स्वीकार किया जाएगा जो या तो मूल रूप में हिन्दी में लिखी गयी हों या किसी अन्य भाषा से हिन्दी में अनुदित की गई हों।

(8) पुस्तक/पाण्डुलिपि किसी अन्य भाषा में पहले लिखी या प्रकाशित पुस्तक का उसी लेखक द्वारा हिन्दी अनुवाद नहीं होना चाहिए।

(9) पुस्तक/पाण्डुलिपि लेखक के अतिरिक्त किसी व्यवसायिक अनुवादक द्वारा किया गया हिन्दी रूपान्तर नहीं होना चाहिए।

(10) पुस्तक/पाण्डुलिपि उच्च कोटि की होनी चाहिए जो कि एम० फिल० डिग्री के समकक्ष हो।

(11) पुस्तक/पाण्डुलिपि जिसे पहले सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त हो चुका है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(12) यदि पुस्तक/पाण्डुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की धनराशि उनमें बराबर बांट दी जाएगी।

(13) यदि पुस्तक/पाण्डुलिपि किसी भी पुरस्कार के लिए अपेक्षित स्तर को नहीं पाई जाती है तो, मूल्यांकन समिति यदि ठीक समझे, उस पुस्तक/पाण्डुलिपि के लिए किसी धनराशि (न्यूनतम पुरस्कार से कम) का सांत्वना पुरस्कार देने की सिफारिश कर सकती है।

(14) पुस्तक/पाण्डुलिपि को पुरस्कार के लिए चुनने अथवा उसकी चुनने की प्रक्रिया के संबंध में किसी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।

(15) पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार एक समारोह अथवा किसी उपयुक्त अवसर पर प्रदान किए जाएंगे, जिसके बारे में पुरस्कार विजेताओं की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दे दी जाएगी।

(16) दिल्ली से बाहर के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी का किराया दिया जाएगा।

(17) संसदीय कार्य मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन और ऐसे चयन को विनियमित करने का अनन्य अधिकार होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संलग्न की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विवेक अग्निहोत्री, सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(मध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 अगस्त 2004

संकल्प

विषय :—अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति का गठन।

सं० एक 9-7/2002-एम०सी० (एल०)—भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसकी संरचना निम्न प्रकार है :—

अध्यक्ष

- (i) केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री सदस्य
- (ii) शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार

- सदस्य
- (iii) अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले चार राज्यों के शिक्षा मंत्री
(स्कूल/उच्चतर/तकनीकी शिक्षा)
- (iv) अल्पसंख्यक समुदाय से लोक सभा के दो सदस्य
(लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
- (v) अल्पसंख्यक समुदाय से राज्य सभा के दो सदस्य
(राज्य सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
- (vi) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति
- (vii) महासचिव, अखिल भारतीय क्रिश्चियन उच्चतर शिक्षा संघ
- (viii) सचिव, अंजुमन तरक्की-उर्दू-ए-हिन्द
- (ix) सचिव, अल्पसंख्यक आयोग
- (x) अधिक जनसंख्या वाले चार राज्यों की सरकारों के सचिव
(स्कूल/उच्चतर/तकनीकी शिक्षा)
- (xi) अल्पसंख्यक मुद्दे से जुड़े शिक्षाविद्, कार्यकर्ता तथा प्रशासक

1. रिचर्ड विसेंट कोनसेसो,
आर्कबिशप ऑफ़ दिल्ली,
आर्कबिशप हाऊस,
1, अशोक प्लेस, नई दिल्ली ।
2. सैयद हामिद,
कुलाधिपति,
जामिया हमदद विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110062
3. श्री आर० चेतनराज जैन,
अध्यक्ष,
श्री भगवान महावीर कालेज,
बी० बी० पुरम, बंगलौर ।
4. नवाब मोहम्मद अब्दुल अली,
प्रिंस आफ़ आर्कोट,
अमीर महल, चेन्नई-600014
5. मौलाना शोदुल रहमान आजमो नदवी,
प्रधानाचार्य,
दारुल उलूम नदवातुल उलूम,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
6. श्री सलमान खुशीद,
अध्यक्ष,
डा० जाकिर हुसैन म्यास,
80, सुखदेव विहार,
मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025
7. मौलाना अंजर शाह,
कुलपति,
बक़ दारुल उलूम विश्वविद्यालय,
देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश ।

8. प्रो० हलीम खान
अध्यक्ष,
मदरसा बोर्ड और सचिव इस्लामिया करपीमिया,
बी०-10 रवि शंकर नगर,
इलाहाबाद बैंक के सामने,
भोपाल, मध्य प्रदेश
9. डा० एम० इसहाक जामखानावाला,
अध्यक्ष,
अंजुमन-ए-इस्लाम,
92, दादा भाई नौरोजी रोड,
मुम्बई-400050
10. मौलाना मोहम्मद बली रहमानी,
नवाब कोठी, बेलन बाज़ार,
खानकाह भूमेर, बिहार
11. श्री पी० एम० मोहम्मद कोया
पूर्व राज्य अध्यक्ष,
मुस्लिम सर्विस सोसाइटी,
पी० बॉ० सं० - 182,
चिरुति रोड, कालीकट-673001
12. श्री डेनजिल सलदाना,
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान,
पोस्ट बॉक्स सं० - 8313,
देवनार, मुम्बई-400088
13. प्रो० न्यूमेन फर्नांडीस,
प्रधानाचार्य,
सेंट जेवियर कला, विज्ञान तथा वाणिज्य कालेज,
मापूसा, गोवा-403507
14. श्री नावेद हामिद,
महासचिव,
मोइमिन, 2143, दवाई टोला,
कासिमजान स्ट्रीट, बल्लोभारान,
दिल्ली-110006
15. श्री आबिद हुसैन,
237, सैक्टर 15ए, नोएडा-201301
उत्तर प्रदेश
16. डॉ० पाल दीनाकरन,
समकुलपति,
करुणया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान,
(सम विश्वविद्यालय) 16 ग्रीनवेज रोड,
चेन्नई-600028
17. डॉ० मोहन वर्गीस,
प्रधानाचार्य,
क्रिश्चियन मेडिकल कालेज,
कुच्चियाणा-141008

- सदस्य
18. श्री फ्रांसिस परमार
प्रधानाचार्य,
सेंट जेवियर कालेज, अहमदाबाद
19. प्रोफेसर पृथ्वी पाल सिंह कपूर,
पूर्व सम कुलपति,
गुरुनानक देव विश्वविद्यालय,
सी-10, राज गुरु नगर,
लुधियाना-141012
20. मौलाना कलब-ए-सादिक,
जौहरी मोहल्ला, विक्टोरिया स्ट्रीट,
लखनऊ-226003
21. श्रीमती हमीदा अल्लाना,
उपाध्यक्ष,
आगा खॉं फाउण्डेशन;
305, मेकर भवन, सं० 3,
21, न्यू मेरिन लाईन्स, मुम्बई-400020
दूरभाष : 3782173 फैक्स : 3282174
22. श्री जफर अली नकवी,
पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश
208/1, किर्ती अपार्टमेंट;
मयूर विहार, फेस-1
नई दिल्ली
23. सिस्टर एम० मेरियन, सी०जे०,
सेन्ट मेरी कॉन्वेंट,
53, टैगोर रोड, कानपुर
24. प्रोफेसर जसवन्त सिंह फुल,
पूर्व प्रधानाचार्य,
गुरु गोविन्द सिंह कॉमर्स कालेज,
सी०-3/18, सफदरजंग एनक्लेव;
नई दिल्ली
25. डा० कविता बी० सूद,
निदेशक,
विवेकानन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल एवं टूरिज्म
मैनेजमेंट;
राजकोट, गुजरात
26. श्री फारुक शेख,
1002, ए हाईलेण्ड पार्क बिल्डिंग;
न्यू लिंक रोड,
ओशिवारा (लोखंडवाला परिसर के पास),
अन्धेरी (पश्चिम);
मुम्बई-400053
27. श्री हीसम सिद्दीकी,
सम्पादक,
जदीद मरकज (साप्ताहिक)
खुर्रम नगर,
लखनऊ-226002
- (xii) अध्यक्ष, ए०आई०सी०टी०ई०/यू०जी०सी० और
एन०सी०टी०ई०
- (xiii) सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
- (xiv) सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
- (xv) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
- (xvi) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सदस्य सचिव
- (xvii) संयुक्त सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा
विभाग, भारत सरकार
2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—
- (i) कार्य योजना 1992 के अध्याय 3—अल्पसंख्यक
शिक्षा के कार्यान्वयन का मॉनीटरिंग करना।
- (ii) अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता तथा संवर्धन,
आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर सर्वोत्तम ढंग से
कैसे ध्यान दिया जाए, के संबंध में सरकार से
शिफारिश करना।
- (iii) अल्पसंख्यक लक्षित मानव संसाधन विकास मंत्रालय
को चल रही योजनाओं को मॉनीटर करना।
- (iv) शिक्षा की परम्परागत प्रणालियों के प्रति सम-
कालीन दृष्टिकोण पर सरकार को परामर्श देना।
3. पदेन सदस्यों के अलावा समिति के सदस्यों की
कार्यकाल अवधि 3 वर्ष होगी। अवधि इस संकल्प के दिनांक
से प्रभावी होगी।
4. समिति अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में
सरकार को सलाह देगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक शिक्षा
को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा शुरू की गई
विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रम को समीक्षा करेगी।
5. जब भी अपेक्षित होगा तब समिति को बैठक होगी
परन्तु समिति की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी।
- आदेश
- आदेश किया जाता है कि संकल्प को एक प्रति समिति के
अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भेजी जाए।
- यह भी आदेश किया जाता है कि संकल्प को सामान्य
सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
- सी० बालाकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 1st September 2004

RESOLUTION

No. F. 8(4)/2004-Hindi : The Ministry of Parliamentary Affairs has been organising a Scheme for giving awards to authors writing original books in Hindi or translating books from other languages into Hindi on the subjects related to Parliamentary systems and procedures or related to the subjects allocated to the Ministry or the subject specified by the Ministry in a particular year, with the subject of giving encouragement to authors to write original books in Hindi as well as translate into Hindi works of reputed authors on the subject. The main features of the scheme will be as under :—

1. NAME OF THE SCHEME

The Scheme will be called 'Parliamentary Hindi Book Prize Scheme'.

2. OBJECTIVES

The aims of the scheme will be to give encouragement to authors to write original books in Hindi as well as translate into Hindi works of reputed authors on the specified subjects.

3. SUBJECT

The book (original or translated) may be on any topic concerned with Parliamentary systems, processes and procedures,

4. THE AWARDS

The awards to be given under the Scheme will be as under :—

Original Manuscripts

(a) First Prize : Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only)

(b) Second Prize : Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand only)

(c) Third Prize : Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only)

Translations

(a) One Prize : Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand only)

Each of the awards will be accompanied with a certificate.

5. ELIGIBILITY

Every Indian citizen, including the employees of Government of India/State Government, can participate in the Scheme. Member/Chairman of Evaluation Committee will not be eligible to participate in the Scheme. The employees of the Ministry

of Parliamentary Affairs too shall not be eligible to participate in the Scheme.

6. EVALUATION COMMITTEE

(1) There shall be an Evaluation Committee of five members to recommend the prizes to be awarded on book/manuscript received under this Scheme. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs shall be ex officio Chairman of the Evaluation Committee. One officer each from the Ministry of Parliamentary Affairs and Department of Official Language shall be the member of the Evaluation Committee. Remaining two Members will be non-official Hindi language knowing experts on the subject of the book.

(2) Non-official Member of the Evaluation Committee shall give their recommendations after studying the books/manuscripts individually to the Ministry of Parliamentary Affairs.

(3) The recommendations of the non-official experts will be considered in the meeting to the Evaluation Committee and prizes shall be decided accordingly.

(4) Prizes shall be announced after the decision taken in the meeting of the Evaluation Committee.

(5) All non-official Members of the Evaluation Committee shall be paid honorarium prescribed by the Ministry for the evaluation work and TA/DA for attending the meetings as admissible under the rules.

7. PERIOD OF WRITING BOOK/MANUSCRIPT

Book/Manuscript presented under the scheme should have not been written/published before 1-1-2002.

8. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The participants of the Scheme will have to abide by and will be governed *inter alia* by following terms and conditions :—

(1) Applications will be invited from the authors through an advertisement in leading Newspapers/Journals, including the Employment News (Hindi Edition).

(2) Published Books as well as Manuscripts, will be accepted under the Scheme. Books/manuscripts submitted by the authors should have been written/published during the prescribed period.

(3) The authors are required to submit their applications alongwith five copies of the book/manuscript to the Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, 8, Parliament House, New Delhi before the specified date. Book/Manuscript to received will not be returned.

(4) The application should be accompanied with two passport size photographs of the author.

(5) Books/manuscripts received after the specified date will not be considered. Ministry will not be responsible for late receipt or loss in transit of books/manuscripts.

(6) The authors will continue to have the copyright of their books/manuscripts which receive the Awards.

(7) Only those books will be accepted under the Scheme which are either written originally in Hindi or translated into Hindi from some other language.

(8) The book/manuscript shall not be the Hindi version of a book already written or published in any other language by the same author.

(9) The book/manuscript should not be a Hindi version done by any professional translator other than the author.

(10) The book/manuscript shall be of a high quality equivalent to an M. Phil dissertation.

(11) A book/manuscript which have already received an award under any other scheme of the Government shall not be accepted.

(12) If there are more than one author of a book/manuscript, the amount of prize will be equally distributed among them.

(13) In the event of a book/manuscript being adjudged not upto the required standard for any of the awards, the Evaluation Committee may recommend a consolation prize of any amount (less than the minimum prize) for that book/manuscript, if it deems fit.

(14) No correspondence will be entertained regarding selection of a book/manuscript for awarding the prize or the selection procedure in regard thereto.

(15) Prizes will be awarded to prize winners at a function or at an appropriate occasion, an intimation about which will be given to the Prize Winners by the Ministry of Parliamentary Affairs.

(16) 2nd class rail fare will be given to the out-station prize winners for attending the prize distribution function.

(17) The Ministry of Parliamentary Affairs shall have exclusive right to select the recipients of the awards and regulation of such selection.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and all Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered further that the Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

V. K. AGNIHOTRI, Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110001, the 7th August 2004

RESOLUTION

Subject: Constitution of a National Monitoring Committee for Minorities Education

No. F. 9-7/2002-MC(L)—The Government of India have decided to constitute a "National Monitoring Committee for Minorities' Education" with the following composition :

Chairman

- (i) Union Minister for Human Resource Development

Member

- (ii) Minister of State for Education, Government of India
- (iii) Education Ministers (School/Higher/Technical Education), of four State Governments with a large minority population
- (iv) Two Members of Lok Sabha from a minority community (Nominated by the speaker, Lok Sabha)
- (v) Two Members of Rajya Sabha from a minority community (Nominated by the Chairman Rajya Sabha)
- (vi) Vice Chancellors of Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia
- (vii) General Secretary, All India Association for Christian Higher Education
- (viii) Secretary, Anjuman Tarraqqi-Urdu-e-Hind Member
- (ix) Secretary, Minorities Commission
- (x) Secretary, (School/Higher/Technical Education), four State Governments with a large minority population
- (xi) Academics, activists and administrators of connected with Minority issues :

1. Rev. Vincent Concessao
Archbishop of Delhi
Archbishop House
1 Ashok Place,
New Delhi
2. Mr. Saiyid Hamid
Chancellor
Jamia Hamdard University
New Delhi-110062
3. Mr. R. Chenraj Jain
Chairman
Shri Bhagwan Mahavir College
V. V. Prum, Bangalore
4. Nawab Mohammed Abdul Ali
Prince of Arcot
'Amir Mahal',
Chennai-600014
5. Maulana Sheedul Rehman Aami Nadwi
Principal
Darul Uloom Nadwatul Uloom
Lucknow,
Uttar Pradesh
6. Mr. Salman Khursheed
Chairman
Dr. Zakir Hussain Trust
80, Sukhdev Vihar
Mathura Road
New Delhi-110025
7. Maulana Anzar Shah
Vice Chancellor
Waqf Darul Uloom University
Deoband
Saharanpur,
Uttar Pradesh
8. Prof. Halim Khan
Chairman,
Madarsa Board and Secretary Islamia
Karnia B-10 Ravi Shankar Nagar
Opp. Allahabad Bank
Bhopal, Madhya Pradesh
9. Dr. M. Ishaq Jamkhanawala
President
Anjuman-e-Islam
91, Daba Bhai Naoroji Road
Bombay-400 050
10. Maulana Mohd. Wali Rehmani
Nawab Kohti, Belan Bazar
Khankah, Munger, Bihar
11. Mr. P. M. Mohamed Koya
Past State President
Muslim Service Society (MSS)
P. B. No. 182, Cherooty Road,
Calicut-673001
12. Mr. Denzil Saldana
Tata Institute of Social Sciences
Post Box No. 8313
Deonar,
Mumbai-400 088
13. Prof. Newman Fernandes
Principal
St. Xavier's College of Arts, Science &
Commerce, Mapusa, Goa-403 507
14. Mr. Navaid Hamid
General Secretary
MOEMIN
2143, Dawai Tola
Qasimijan Street, Ballimaran,
Delhi-110 006
15. Mr. Abid Hussain
237 Sector 15 A
Noida 201 501,
(Uttar Pradesh)
16. Dr. Paul Dinakaran
Pro-Chancellor
Karunya Institute of Technology and Sciences
(Deemed University)
16 Greenways Road
Chennai-600 028
17. Dr. Mohan Verghese
Principal
Christian Medical College
Ludhiana-141 088
18. Mr. Francis Parmar
Principal
St. Xavier's College
Ahmedabad
19. Prof. Prithipal Singh Kapur
Former Pro-VC
Guru Nanak Dev University
C-10 Raj Guru Nagar
Ludhiana -- 141 012
20. Maulana Kalb-I Sadiq
Jauhari Mohalla
Victoria Street
Lucknow-226 003
21. Mrs. Hameeda Allana
Vice-Chairman
Aga Khan Foundation
305, Maker Bhavan No. 3,
21, New Marine Lines,
Mumbai-400020
Tel: 3782173 Fax 3782174
E-Mail general@akfindia.org www.akdn.org

22. Mr. Zafar Ali Naqvi
Former Minister, U.P. Government
208/1, Kirti Apartments,
Mayur Vihar Phase-1,
New Delhi
Ph. No. 31263408
23. Sister M. Marian C. J.
St. Mary's Convent
53 Tagore Road
Kanpur
24. Prof. Jaswant Singh Phul
Former Principal
Guru Gobind Singh Commerce College
C-3/18 Safdarjang Enclave, New Delhi
25. Dr. Kavita B. Sood
Director
Vivekanand Institute of Hotel & Tourism
Management, Rajkot, Gujarat
26. Shri Farouque Shaikh
1002 A Highland Park Building
New Link Road
Oshiwara (Near Lokhandwala Complex)
Andheri (West), Mumbai-400053
27. Shri Hisam Siddiqui
Editor
Jadeed Markaz (Weekly)
Khurram Nagar, Lucknow-226002

Members

- (xii) Chairman, AICTE/UGC and NCTE
- (xiii) Secretary, Department of Secondary and Higher Education
- (xiv) Secretary, Department of Elementary Education and Literacy
- (xv) Secretary, Department of Women and Child Development
- (xvi) Secretary, Department of Social Justice and Empowerment

Member Secretary

- (xvii) Joint Secretary, Department of Secondary and Higher Education Government of India
2. The terms of reference of the Committee are :-
- (i) To monitor the implementation of Chapter 3-Minorities' Education of the Programme of Action, 1992
- (ii) To recommend to the Government how to best address issues related to reservation, recognition and affiliation of minority institutions
- (iii) To monitor the ongoing schemes of the Ministry of HRD targeted at Minorities.
- (iv) To advise the Government on the contemporary approach towards traditional methods of instruction.
3. The tenure of the members of the Committee, except the ex-officio members shall be 3 years. The tenure shall take effect from the date of this Resolution.
4. The Committee shall advise the Government on all matters pertaining to the education of minorities. In addition, it will review the functioning of various schemes launched by the Ministry for the purposes of promoting minority education.
5. The Committee will meet as often as required but at least once every year.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the Chairman and other members of the Committee.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. BALAKRISHNAN
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004